

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Surat Branch Office)

Our Ref: SUBO/IS 17682:2021

Date: 02.12.2022

Sub: First application on All India Basis for IS 17682:2021


It is informed that an application for grant of BIS Certification Marks Licence for 'Aluminium Composite panel- Specification' as per IS 17682:2021 has been received at SUBO. As seen from Intranet/BIS website it is observed that no license exists for this Indian Standard.

CMD-2 is requested to provide us with relevant guidelines, STI, Marking Fee if any prevailing for the product.

All ROs/BOs are requested to provide the inputs, if any, available with them for this particular product.

As per BIS website no BIS/outside Labs are available to undertake testing for the product as per IS IS 17682:2021 are requested to provide any details regarding possible BIS/BIS Approved labs or other labs who can undertake testing for this product

LPPD is also requested to provide any directives in this regard.



(Satyendra Kumar Pandey)

Scientist- D



Scientist E & Head (SUBO)

DDGW

Head (CMD-I, II & III)

Head (LPPD)

Head All ROs/ BOs

ITSD- with request for circulation on Intranet

भारतीय मानक ब्युरो
(सूरत शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ: सू.शा.का/IS 17682:2021

दिनांक: 02/12/2022

विषय: भा.मा. IS 17682:2021 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक के लिए सूरत शाखा कार्यालय मे भा. मा. IS 17682:2021 के तहत उत्पाद 'एल्युमीनिम कॉम्पोजिट पैनल " के लिए बी आई एस प्रमाणन मार्क्स लाईसेंस के अनुसार लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है। भारतीय मानक के इंटरनेट/बी आई एस वेबसाइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह उपरोक्त वर्णित उत्पाद के लिए अखिल भारत स्तर पर कोई भी लाइसेंस नहीं हैं ।

केंद्रीय मुहर विभाग- 2 से यह निवेदन है कि कृपया इस उत्पाद से संबन्धित संगत सामूहिक मार्गदर्शिका, एस टी आई, मुहरांकन शुल्क आदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करे।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि वे इस विशेष उत्पाद के लिए कोई जानकारी उपलब्ध है तो प्रदान करने का कष्ट करें।

बीआईएस वेबसाइट के अनुसार आईएस 17682:2021 के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए कोई बीआईएस/बाहरी प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं। प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे संभावित बीआईएस स्वीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में कोई विवरण प्रदान करें जो इस उत्पाद का परीक्षण कर सकते हैं

एल पी पी डी से भी इस संदर्भ मे अनुरोध है कि इस उत्पाद के सबन्ध में कोई दिशा निर्देश प्रदान करे।




वैज्ञानिक F एंड प्रमुख (सू.शा.का)

उपमहानिदेशक, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई,

प्रमुख (सीएमडी- -I, II & II)

प्रमुख सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं

प्रमुख (एल पी पी डी)



(सत्येंद्र कुमार पाण्डेय)

वैज्ञानिक-डी

आईटीएसडी- भा मा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध सहित